



भजन

तर्ज- बीते हुए लम्हों की कसक

मेरी प्यारी रूहो, रब्द न करो,
न देखो यह लीला,जिद्द न करो-2
तिलस्म के खेल में तुम मदहोश रहोगी
सुध घर की न रहेगी बेहोश रहोगी

1- झूठी जिमी का तुमको इतना लगेगा स्वाद
भूलोगी अपने अर्श को हक भी रहें न याद
नासूत के जहां में फरामोश रहोगी

2- समझाईयां समझे नहीं मानें नहीं फुरमान
तुम कौन हो हम कौन हैं कैसी अपनी पेहेचान
हादी के सुकन सुन कर खामोश रहोगी

3- तहकीक जान छल को फिर भी न छोड़ेगी
बेशक ईलम को लेके भी मन को न मोड़ेगी
दुनियां के देवतों का जयघोष करोगी

4- लगी खंत खरी खेल की सुरता फिराओ तुम
पर कौल याद रखना अलस्तो बे रब कुंम
सादक रहेगा इश्क तो निर्दोष रहोगी

